

Entre els diversos tipus d'aorist, el més freqüent és l'aorist temàtic, ja que es dóna sobretot amb els verbs irregulars, que –com en totes les llengües– ho són pel fet de ser els verbs més emprats. Per tant, convé fer una classificació dels verbs irregulars i amb aorist temàtic, seguida d'un llistat dels més freqüents, entre els quals es poden distingir quatre categories principals: verbs polirizes, verbs politemàtics, verbs incoatius i verbs amb diversos tipus de reforç.

- Verbs polirizes *PoliR*
- Verbs politemàtics *PoliT*
- Verbs incoatius *Inch TP*
- Verbs amb un reforç -e- en el tema de present, *REF e TP*
- Verbs amb un reforç -e- en el tema de futur *REF e TF*
- Verbs amb un reforç nasal -v- en el tema de present, *REF n TP*
- Verbs amb un reforç nasal -vε- en el tema de present, *REF ne TP*
- Verbs amb un reforç nasal -av- en el tema de present *REF an TP*
- Verbs amb un reforç nasal -av- en el tema de present i amb la inserció anterior de una -v- *REF n an TP*

INDicatiu				
3a sg	present	futur	aorist	perfecte

Verbs polarizes (en castellà *polirrizzos*), és a dir, amb temes temporals (tema de present, de futur, d'aorist i de perfecte) procedents de més d'una ($\pi\omega\lambda\nu$) arrel ($\dot{\rho}\dot{\iota}\zeta\alpha$), com en llatí *fero*, *tuli*, *latum*, en català *vaig / anava / fou* o en castellà *voy / iba / fui*.

$\dot{\epsilon}\rho\chi\omega\mu\alpha\iota$ = $\dot{\epsilon}\rho\chi\text{-o-}\mu\alpha\iota$	$\dot{\epsilon}\tilde{\imath}\mu\iota$ = $\dot{\epsilon}\tilde{\imath}\text{-}\mu\iota$	$\dot{\eta}\lambda\theta\omega\upsilon$ = $\dot{\epsilon}\lambda\theta\text{-o-}\nu$	$\dot{\epsilon}\lambda\eta\lambda\nu\theta\alpha$ = $\dot{\epsilon}\lambda\text{-}\dot{\epsilon}\lambda\nu\theta\text{-}\alpha$
- tema de present:	- tema de futur:	- tema d'aorist:	- tema de perfect:
$\dot{\epsilon}\rho\chi\text{-} < \dot{\epsilon}\rho\chi\text{-} < \sigma\epsilon\rho\chi\text{-}$	$\dot{\epsilon}\tilde{\imath}\text{-}$	$\dot{\epsilon}\lambda\theta\text{-} < \dot{\epsilon}\lambda\nu\theta$	$\dot{\epsilon}\lambda\nu\theta\text{-}$
- arrel:	- arrel:	- arrel:	- arrel:
$\dot{\epsilon}\rho\chi\text{-} < \dot{\epsilon}\rho\chi\text{-} < \sigma\epsilon\rho\chi\text{-}$	$\dot{\epsilon}\tilde{\imath}\text{-}$	$\dot{\epsilon}\lambda\theta\text{-} < \dot{\epsilon}\lambda\nu\theta$	$\dot{\epsilon}\lambda\nu\theta\text{-}$

PoliR

Verbs politemàtics, és a dir, amb temes temporals procedents d'una mateixa arrel però que semblen diferents perquè l'arrel presenta diferents graus vocàlics en diferents temes (un sistema aquest d'alternances vocàliques que no és estrany a les llengües modernes: castellà *muero morimos muramos*, anglès *drink drank drunk*, alemany *trink trank getrunkent*). El tipus d'alternança vocàlica més comú en els verbs és l'alternança ε / o / Ø :

ε : grau e, o amb vocal ε

o : grau o, o amb vocal o

Ø : grau zero, o amb absència de vocal

com es pot veure en aquests exemples:

PoliT

λείπει = λείπ-ει - tema de present: λειπ-	λείψει < λείπ-σ-ει - tema de futur: λειπ-	ξλιπε(ν) = ξ-λιπ-ε - tema d'aorist: λιπ-	λέλοιπε = λέ-λοιπ-ε - tema de perfet: λε-λοιπ-
πείθεται = πειθ-ε-ται tema de present πειθ-	πείσεται < πείθ-σ-ε-ται tema de futur πειθ-	ἐπίθετο = ἐ-πίθ-ε-το tema d'aorist πιθ-	πέποιθα = πέ-ποιθ-α tema de perfet πε-ποιθ-
τίκτει < τί-τκ-ει - tema de present: τι-τκ-	τέξεται < τέκ-σ-ε-ται - tema de futur: τεκ-	ἔτεκε(ν) < ξ-τέκ-ε - tema d'aorist: τεκ-	τέτοκα = τέ-τοκ-α - tema de perfet: τε-τοκ-
γίγνεται = γί-γν-ε-ται - tema de present: γι-γν-	γενήσεται < γεν-ή-σ-ε-ται - tema de futur γεν-	ἐγένετο = ἐ-γέν-ε-το - tema d'aorist: γεν-	γέγονε = γέ-γον-ε - tema de perfet: γε-γον-
Ø : Ø	Ø	Ø	Ø

Verbs incoatius (del llatí *inchoare, començar*), o verbs que en el seu tema de present inclouen un reforç **-σκ-** o **-ισκ-**, el qual **-se** sol dir- indica que l'acció verbal comença o està en procés (com en llatí *senesco, envellir*, equiparable al grec *γηράσκω*):

Inch TP

εύρίσκει	εύρησει	εῦρε(v)	εῦρηκα
= εύρ-ίσκ-ει	< εύρ-ή-σ-ει	= εῦρ-ε	= εῦρ-η-κ-ε
- tema de present:	- tema de futur:	- tema d'aorist:	- tema de perfet:
εύρ-ισκ-	εύρ-η-σ-	εύρ-	εύρ-η-κ-
- arrel:	- arrel:	- arrel:	- arrel:
εύρ-	εύρ-	εύρ-	εύρ-

Verbs amb reforç -e- en el tema de present:

REF e TP

αἱρεῖ	αἱρήσει	εἷλε(v)	ἥρηκε
< αἱρέ-ει	< αἱρ-ή-σ-ει	< ἔ-σελ-ε	< αἵρ-η-κ-ε
- tema de present:	- tema de futur:	- tema d'aorist:	- tema de perfet:
αἱρ-ε-	αἱρ-η-σ-	ἔλ- < σελ-	αἱρ-η-κ-
- arrel:	- arrel:	- arrel:	- arrel:
αἱρ-	αἱρ-	ἔλ- < σελ-	αἱρ-

Verbs amb reforç -e- en el tema de futur:

REF e TF

ἐρεται	ἐρήσεται	ἥρετο
= ἐρ-ε-ται	= ἐρ-ή-σ-ε-ται	< ἐρ-ε-το
- tema de present:	- tema de futur:	- tema d'aorist:
ἐρ-	ἐρ-η-σ-	ἐρ-
- arrel:	- arrel:	- arrel:
ἐρ-	ἐρ-	ἐρ-

Verbs amb reforç nasal -v- en el tema de present:

REF n TP

τέμνει	τεμεῖ	ἔτεμε(ν)	τέτμηκα
< τέμ-ν-ει	< τεμ-έ-σ-ει	< ἔ-τεμ-ε	= τέ-τμη-κα
- tema de present:	- tema de futur:	- tema d'aorist:	- tema de perfet:
τέμ-ν-	τεμ-έ-σ-	τεμ-	τμη-
- arrel:	- arrel:	- arrel:	- arrel:
τεμ-	τεμ-	τεμ-	τμη-

Verbs amb reforç nasal -vε- en el tema de present:

REF ne TP

ἀφικνεῖται	ἀφίξεται	ἀφίκετο	ἀφίκται
= ἀφ-ικ-νέ-ε-ται	< ἀφ-ίκ-σ-ε-ται	= ἀφ-ίκ-ε-το	< ἀφ-ίκ-ται
- tema de present:	- tema de futur:	- tema d'aorist:	- tema de perfet:
ίκ-νε-	ίκ-σ-	ίκ-	ίκ-
- arrel:	- arrel:	- arrel:	- arrel:
ίκ	ίκ-	ίκ-	ίκ-

Verbs amb un reforç nasal -av- en el tema de present:

REF an TP

άμαρτάνει	άμάρτήσεται	ἡμαρτε(ν)	ἡμάρτηκε
= ἀμαρτ-άν-ει	= ἀμάρτ-ή-σ-ε-τα	< ἀμαρτ-ε	< ἀμάρτ-η-κ-ε
- tema de present:	- tema de futur:	- tema d'aorist:	- tema de perfet:
άμαρτ-αν-	άμαρτ-η-σ-	άμαρτ-	άμαρτ-η-κ-
- arrel:	- arrel:	- arrel:	- arrel:
άμαρτ-	άμαρτ-	άμαρτ-	άμαρτ-

Verbs amb un reforç nasal -*av*- en el tema de present

i amb la inserció anterior de una v

REF n an TP

la qual pot assimilar-se a la consonant (de l'arrel) que segueix:

i també pot escriure's -γ-, d'acord amb la convenció ortogràfica segons la qual la consonant oclusiva gutural sonora, γ, es llegeix [n] * davant qualsevol consonant oclusiva gutural (γ / κ / χ):

* ἄγγελος es llegeix 'ánguelos'

ὄγκος es llegeix 'ónkos'

μελαγχολία es llegeix 'melanjolía'

λανθάνει = λα-ν-θ-άν-ει - tema de present: λα-ν-θ-αν- - arrel: λαθ-	λήσει < λήθ-σ-ει - tema de futur: ληθ-σ- < λᾶθ-σ- - arrel: ληθ-	ξλαθε(v) = ξ-λαθ-ε - tema d'aorist: λαθ- - arrel: λαθ-	λέληθε = λέ-ληθ-ε - tema de perfet: λε-ληθ- < λε-λᾶθ- λᾶθ- - arrel: ληθ- < λᾶθ-
--	--	---	---

λαμβάνει = λα-μ-β-άν-ει - tema de present: λα-μ-β-αν- ← λα-γ-β-αν- - arrel: λαβ- < σλαβ-	λήψεται < λήβ-σ-ε-ται - tema de futur: ληβ-σ- ← λη-γ-β-αν- - arrel: ληβ- < σλαβ-	ξλαβε(v) = ξ-λαβ-ε - tema d'aorist: λαβ- - arrel: λαβ- < σλαβ-	εῖληφε < σέ-σλᾶφ-ε - tema de perfet: ει-ληφ- < σε-σλᾶβ- σλᾶβ- - arrel: ληβ- < σλᾶβ-
--	--	---	---

τυγχάνει = τυ-γ-χ-άν-ει - tema de present: τυ-γ-χ-αν- ← τυ-γ-χ-αν- - arrel: τυχ-	τεύξεται < τευχ-σ-ε-ται - tema de futur: τευχ-σ- ← τευχ-γ-χ-αν- - arrel: τευχ-	ξτυχε(v) = ξ-τυχ-ε - tema d'aorist: τυχ- - arrel: τυχ-	τετύχηκα < τε-τυχ-η-κ-α - tema de perfet: τε-τυχ-η-κ - arrel: τυχ-
--	--	---	---

Llista dels verbs irregulars amb aorist temàtic més freqüents

		indicatiu		
		tema de present	tema de futur	tema d'aorist
1a sg	present	imperfet	futur	aorist

PoliR

Arrels:		αἱρ-	αἱρ-	έλ- < σελ-
Temes:		αἱρ-ε-	αἱρ-ε-σ-	έλ- < σελ-
<i>agafar</i>	ACT	αἱρῶ	ἥρουν	αἱρήσω
		< αἱρ-έ-ω	< αἱρ-έ-ο-ν	< αἱρ-έ-σ-ω
<i>escollir</i>	MITJ	αἱροῦμαι	ἥρούμην	αἱρήσομαι
		< αἱρ-έ-ο-μαι	< αἱρ-ε-ό-μην	< αἱρ-έ-σ-ο-μαι

PoliR

Arrels:	ἐρχ- < σερχ-		ει-	ἐλθ-
Temes:	ἐρχ- < σερχ-		ει-	ἐλθ-
<i>anar, venir</i>	ἔρχομαι	ἥρχόμην	εῖμι	ἥλθον
	< ἔρχ-ο-μαι < σέρχ-ο-μαι	< ἔρχ-ό-μην < σέρχ-ό-μην	= εῖ-μι	= ἐλθ-ο-ν

PoliR

Arrels:	ἐσθι-		ἐδ-	φαγ-
Temes:	ἐσθι-		ἐδ-	φαγ-
<i>menjar</i>	ἐσθιω	ἥσθιον	ἔδομαι	ἔφαγον
	= ἐσθι-ω	< ἔσθι-ο-ν	= ἐδ-ο-μαι	= ἐ-φαγ-ο-ν

PoliR	Arrels:	$\lambda\acute{\epsilon}\gamma-$		$\dot{\epsilon}\rho-$ < $\text{F}\acute{\epsilon}\rho-$	$\dot{\epsilon}\pi-$ < $\text{F}\acute{\epsilon}\pi-$
	Temes:	$\lambda\acute{\epsilon}\gamma-$		$\dot{\epsilon}\rho\text{-}\epsilon\text{-}\sigma\text{-}$ < $\text{F}\acute{\epsilon}\rho\text{-}\epsilon\text{-}\sigma\text{-}$	$\dot{\epsilon}\pi\text{-}$ < $\text{F}\acute{\epsilon}\pi\text{-}$
	<i>dir</i>	$\lambda\acute{\epsilon}\gamma\omega$	$\ddot{\epsilon}\lambda\acute{\epsilon}\gamma\omega\eta$	$\dot{\epsilon}\rho\tilde{\omega}$	$\varepsilon\tilde{\iota}\pi\omega\eta$

		$= \lambda\acute{\epsilon}\gamma\text{-}\omega$	$= \ddot{\epsilon}\text{-}\lambda\acute{\epsilon}\gamma\text{-}o\text{-}\nu$	$< \text{F}\acute{\epsilon}\rho\text{-}\acute{\epsilon}\text{-}\sigma\text{-}\omega$	$< \ddot{\epsilon}\text{-}\text{F}\acute{\epsilon}\pi\text{-}o\text{-}\nu$
--	--	---	--	--	--

PoliR	Arrels:	$\acute{\delta}\rho\alpha-$ < $\text{F}\acute{\delta}\rho\alpha-$		$\acute{\delta}\pi-$	$\acute{i}\delta-$ < $\text{F}\acute{i}\delta-$
	Temes:	$\acute{\delta}\rho\alpha-$ < $\text{F}\acute{\delta}\rho\alpha-$		$\acute{\delta}\pi\text{-}\sigma\text{-}$	$\acute{i}\delta\text{-}$ < $\text{F}\acute{i}\delta\text{-}$
	<i>veure</i>	$\acute{\delta}\rho\tilde{\omega}$	$\acute{\epsilon}\acute{\omega}\rho\omega\eta$	$\acute{\delta}\psi\omega\mu\eta$	$\acute{\epsilon}\tilde{\iota}\delta\omega\eta$

		$\acute{\delta}\rho\acute{\alpha}\text{-}\omega$	$\acute{\epsilon}\text{-}\acute{\delta}\rho\alpha\text{-}o\text{-}\nu$	$< \acute{\delta}\text{-}\text{F}\acute{\delta}\rho\alpha\text{-}o\text{-}\nu$	$< \acute{\epsilon}\text{-}\text{F}\acute{i}\delta\text{-}o\text{-}\nu$
--	--	--	--	--	---

PoliR

Arrels:	$\pi\iota-$		$\pi\iota-$	$\pi\iota-$
Temes:	$\pi\iota-\nu-$		$\pi\iota-$	$\pi\iota-$
<i>beure</i>	$\pi\iota\nu\omega$ = $\pi\acute{\iota}-\nu-\omega$	$\check{\epsilon}\pi\iota\nu\omega$ = $\check{\epsilon}-\pi\iota-\nu-o-\nu$	$\pi\iota\mu\alpha i$ = $\pi\acute{i}-o-\mu\alpha i$	$\check{\epsilon}\pi\iota\nu\omega$ = $\check{\epsilon}-\pi\iota-o-\nu$

PoliR

Arrels:	$\tau\rho\varepsilon\chi-$ < $\theta\rho\acute{\varepsilon}\chi-$		$\delta\rho\alpha\mu-$	$\delta\rho\alpha\mu-$
Temes:	$\tau\rho\varepsilon\chi-$ < $\theta\rho\acute{\varepsilon}\chi-$		$\delta\rho\alpha\mu-\varepsilon-\sigma-$	$\delta\rho\alpha\mu-$
<i>córrer</i>	$\tau\rho\acute{\varepsilon}\chi\omega$ $< \theta\rho\acute{\varepsilon}\chi-\omega$	$\check{\epsilon}\tau\rho\varepsilon\chi\omega$ $< \check{\epsilon}-\theta\rho\acute{\varepsilon}\chi-\omega$	$\delta\rho\alpha\mu\tilde{\omega}\mu\alpha i$ $< \delta\rho\alpha\mu-\acute{e}-\sigma-\omega\mu\alpha i$	$\check{\epsilon}\delta\rho\alpha\mu\omega$ $= \check{\epsilon}-\delta\rho\alpha\mu-\omega$

PoliR

Arrels:	φερ-		οἱ-	ἐγκ-
Temes:	φερ-		οἱ-σ-	ἐν-εγκ-
<i>portar</i>	φέρω	ἔφερον	οἴσω	ῆνεγκον
	= φέρ-ω	= ἔ-φερ-ο-ν	= οἱ-σ-ω	< ἐν-εγκ-ο-ν

PoliT

Arrel:	βαλ-		βαλ-	βαλ-
Temes:	< βαλ-y		βαλ-ε-σ-	βαλ-
<i>llançar</i>	βάλλω	ἔβαλλον	βαλῶ	ἔβαλον
	< βάλ-y-ω	< ἔ-βαλ-y-o-ν	< βαλ-έ-σ-ω	= ἔ-βαλ-o-ν

	Arrel:	$\gamma\nu-$	$\gamma\varepsilon\nu-$	$\gamma\varepsilon\nu-$
<i>PoliT</i>	Temes:	$\gamma\iota-\gamma\nu-$	$\gamma\varepsilon\nu-\varepsilon-\sigma-$	$\gamma\varepsilon\nu-$
	<i>esdevenir, ser</i>	$\gamma\iota\gamma\nu\omega\alpha\iota$	$\dot{\epsilon}\gamma\iota\gamma\nu\omega\mu\eta\eta$	$\gamma\varepsilon\nu\eta\sigma\omega\mu\alpha\iota$
		$= \gamma\iota-\gamma\nu-o-\mu\alpha\iota$	$= \dot{\epsilon}-\gamma\iota-\gamma\nu-\acute{o}-\mu\eta\eta$	$< \gamma\varepsilon\nu-\acute{\eta}-\sigma-o-\mu\alpha\iota$
				$= \dot{\epsilon}-\gamma\varepsilon\nu-\acute{o}-\mu\eta\eta$

	Arrel:	$\dot{\varepsilon}\chi-$ < $\sigma\varepsilon\chi-$	$\dot{\varepsilon}\chi-$ < $\sigma\varepsilon\chi-$	$\sigma\chi-$
<i>PoliT</i>	Temes:	$\dot{\varepsilon}\chi-$ < $\sigma\varepsilon\chi-$	$\dot{\varepsilon}\chi-\sigma-$ < $\sigma\varepsilon\chi-\sigma-$	$\sigma\chi-$
	<i>tenir</i>	$\ddot{\varepsilon}\chi\omega$	$\varepsilon\ddot{\chi}\omega\eta$	$\ddot{\varepsilon}\xi\omega$
		$< \ddot{\varepsilon}\chi\omega$	$< \ddot{\varepsilon}-\sigma\varepsilon\chi-o-\nu$	$< \sigma\acute{\varepsilon}\chi-\sigma-\omega$
				$= \ddot{\varepsilon}-\sigma\chi-o-\nu$

	Arrel:	λειπ-		λειπ-	λιπ-
PoliT	Temes:	λειπ-		λειπ-σ-	λιπ-
	<i>deixar</i>	λείπω	ἔλειπον	λείψω	ἔλιπον
		= λείπ-ω	= ἔ-λειπ-ο-ν	< λειπ-σ-ω	= ἔ-λιπ-ο-ν

	Arrel:	πάθ- < πνθ-		πενθ- < πνθ-	παθ- < πνθ-
PoliT	Temes:	πάθ-σκ-		πενθ-σ-	παθ-
	<i>patir</i>	πάσχω	ἔπασχον	πείσομαι	ἔπαθον
		< πάθ-σκ-ω	< ἔ-παθ-σκ-ο-ν	< πενθ-σ-ο-μαι	= ἔ-παθ-ο-ν

Arrel:		$\pi\varepsilon\iota\theta-$	$\pi\varepsilon\iota\theta-$	$\pi\varepsilon\iota\theta-$
Temes:		$\pi\varepsilon\iota\theta-$	$\pi\varepsilon\iota\theta-\sigma-$	$\pi\varepsilon\iota\theta-$
<i>convéncer</i>	ACT	$\pi\varepsilon\iota\theta\omega$	$\check{\varepsilon}\pi\varepsilon\iota\theta\omega$	$\pi\varepsilon\iota\sigma\omega$
		$= \pi\varepsilon\iota\theta-\omega$	$= \check{\varepsilon}\text{-}\pi\varepsilon\iota\theta-\sigma-\omega$	$< \pi\varepsilon\iota\theta-\sigma-\omega$
				$< \check{\varepsilon}\text{-}\pi\varepsilon\iota\theta-\sigma-\alpha$

PoliT	Arrel:		$\pi\varepsilon\iota\theta-$	$\pi\varepsilon\iota\theta-$	$\pi\iota\theta-$
	Temes:		$\pi\varepsilon\iota\theta-$	$\pi\varepsilon\iota\theta-\sigma-$	$\pi\iota\theta-$
	<i>obeir</i>	MITJ	$\pi\varepsilon\iota\theta\omega\mu\alpha\iota$	$\dot{\varepsilon}\pi\varepsilon\iota\theta\omega\mu\eta\nu$	$\pi\varepsilon\iota\sigma\omega\mu\alpha\iota$
			$= \pi\varepsilon\iota\theta-\sigma-\omega\mu\alpha\iota$	$= \dot{\varepsilon}\text{-}\pi\varepsilon\iota\theta-\sigma-\omega\mu\eta\nu$	$< \pi\varepsilon\iota\theta-\sigma-\omega\mu\alpha\iota$
					$= \dot{\varepsilon}\text{-}\pi\iota\theta-\sigma-\omega\mu\eta\nu$

	Arrel:	$\pi\tau-$	$\pi\varepsilon\sigma-$	$\pi\varepsilon\sigma-$
<i>PoliT</i>	Temes:	$\pi\acute{i}\text{-}\pi\tau\text{-}$	$\pi\varepsilon\sigma\text{-}\varepsilon\text{-}$	$\pi\varepsilon\sigma\text{-}$
	<i>caure</i>	$\pi\acute{i}\pi\tau\omega$	$\check{\epsilon}\pi\acute{i}\pi\tau\text{ov}$	$\pi\varepsilon\sigma\check{\omega}\mu\alpha i$
		$= \pi\acute{i}\text{-}\pi\tau\text{-}\omega$	$= \check{\epsilon}\text{-}\pi\acute{i}\text{-}\pi\tau\text{-}o\text{-}\nu$	$< \pi\varepsilon\sigma\text{-}\acute{e}\text{-}o\text{-}\mu\alpha i$
				$= \check{\epsilon}\text{-}\pi\varepsilon\sigma\text{-}o\text{-}\nu$

	Arrel:	$\tau\kappa-$	$\tau\varepsilon\kappa-$	$\tau\varepsilon\kappa-$
<i>PoliT</i>	Temes:	$\tau\acute{i}\tau\kappa\text{-} < \tau\acute{i}\text{-}\tau\kappa$	$\tau\varepsilon\kappa\text{-}\sigma\text{-}$	$\tau\varepsilon\kappa\text{-}$
	<i>infantar, parir</i>	$\tau\acute{i}\kappa\tau\omega$	$\check{\epsilon}\tau\acute{i}\kappa\tau\text{ov}$	$\tau\acute{\epsilon}\zeta\mu\alpha i$
		$= \tau\acute{i}\kappa\tau\text{-}\omega$ $< \tau\acute{i}\text{-}\tau\kappa\text{-}\omega$	$= \check{\epsilon}\text{-}\tau\acute{i}\kappa\tau\text{ov}$ $< \check{\epsilon}\text{-}\tau\acute{i}\text{-}\tau\kappa\text{-}o\text{-}\nu$	$< \tau\acute{\epsilon}\kappa\text{-}\sigma\text{-}o\text{-}\mu\alpha i$
				$= \check{\epsilon}\text{-}\tau\varepsilon\kappa\text{-}o\text{-}\nu$

	Arrel:	φευγ-		φευγ-	φυγ-
	Temes:	φευγ-		φευγ-σ-	φυγ-
PoliT	<i>fugir</i>	φεύγω	ἔφευγον	φεύξομαι	ἔφυγον
		= φεύγ-ω	= ἔ-φευγ-ο-ν	< φεύγ-σ-ο-μαι	= ἔ-φυγ-ο-ν

	Arrel:	εὐρ- < ἐ-Φρ-		εὐρ- < ἐ-Φρ-	εὐρ- < ἐ-Φρ-
	Temes:	εὐρ-ίσκ- < ἐ-Φρ-ίσκ-		εὐρ-η-σ- < ἐ-Φρ-η-σ	εὐρ- < ἐ-Φρ-
Inch TP	<i>trobar</i>	εὐρίσκω	ηὕρισκον	εὐρήσω	εὔρον
		= εὐρ-ίσκ-ω < ἐ-Φρ-ίσκ-ω	= εὐρ-ίσκ-ο-ν < ἐ-Φρ-ίσκ-ο-ν	εὐρ-ή-σ-ω < ἐ-Φρ-ή-σ-ω	εὔρ-ο-ν < ἐ-Φρ-ο-ν

	Arrel:	θνῆ- < θνᾶ-	θαν-	θαν-	
Inch TP	Temes:	θνῆ-σκ-	θαν-ε-σ-	θαν-	
	<i>morir</i>	θνήσκω	ἔθνησκον	θανοῦμαι	ἔθανον
		< θνᾶ-ισκ-ω	< ἔ-θνᾶ-ισκ-ο-ν	< θαν-έ-σ-ομαι	= ἔ-θαν-ο-ν

REF n TP	Arrel:	έλα-	έλα-	έλα-		
	Temes:	έλαυ-ν- < ἔλά-ϝ-ν-	έλα-	έλα-		
	<i>conduir</i>	έλαύνω	ἥλαυνον	έλω, έλαζ,...		
		έλαύ-ν-ω < ἔλά-ϝ-ν-ω	έλαυ-ν-ο-ν < ἔλαϝ-ν-ο-ν	έλά-σ-ω, έλά-σ-εις, ...	έλα-σ-α	No és aor temàtic.

REF n
TP

Arrel:	καμ-		καμ-	καμ-
Temes:	κάμ-v-		καμ-ε-	καμ-
<i>cansar-se</i>	κόμνω	ἐκαμνον	καμοῦμαι	ἐκαμνον
	= κάμ-v-ω	= ἔ-καμ-v-o-v	< καμ-έ-σ-o-μαι	= ἔ-καμ-o-v

REF n
TP

Arrel:	τεμ-		τεμ-	τεμ-
Temes:	τεμ-v-		τεμ-ε-σ-	τεμ-
<i>tallar</i>	τέμνω	ἐτεμνον	τεμῶ	ἐτεμον
	= τέμ-v-ω	= ἔ-τεμ-v-o-v	< τεμ-έ-σ-ω	= ἔ-τεμ-o-v

REF n
TP

Arrels:	$\beta\alpha-$		$\beta\eta- < \beta\bar{a}-$	$\beta\eta- < \beta\bar{a}-$
Temes:	$\beta\acute{\alpha}\text{-v-y-}$		$\beta\eta\text{-}\sigma\text{-}$	$\beta\eta\text{-}$
<i>caminar</i>	$\beta\alpha\acute{\nu}\omega$	$\ddot{\epsilon}\beta\alpha\nu\omega\eta\omega$	$\beta\acute{\eta}\sigma\omega\mu\omega\eta\omega$	$\ddot{\epsilon}\beta\eta\sigma\omega$ $\ddot{\epsilon}\beta\eta\eta\omega$
	< $\beta\acute{\alpha}\nu\text{-y-}\omega$	< $\ddot{\epsilon}\text{-}\beta\alpha\nu\text{-y-o-v}$	= $\beta\acute{\eta}\text{-}\sigma\text{-o-}\mu\omega\eta\omega$	$\ddot{\epsilon}\text{-}\beta\eta\text{-}\sigma\text{-}\alpha$ $\ddot{\epsilon}\text{-}\beta\eta\text{-v}$

aor 1r, sigmàtic
aor 2n, temàtic

REF e
TF

Arrel:	$\mu\alpha\chi-$		$\mu\alpha\chi-$	$\mu\alpha\chi-$
Temes:	$\mu\alpha\chi-$		$\mu\alpha\chi\text{-}\epsilon\text{-}\sigma\text{-}$	$\mu\alpha\chi\text{-}\epsilon\text{-}\sigma\omega/\sigma\epsilon$
<i>lluitar</i>	$\mu\acute{\alpha}\chi\omega\mu\omega\eta\omega$	$\dot{\epsilon}\mu\alpha\chi\acute{\omega}\mu\omega\eta\omega$	$\mu\alpha\chi\acute{\omega}\mu\omega\eta\omega$	$\dot{\epsilon}\mu\alpha\chi\acute{\omega}\epsilon\omega\mu\omega\eta\omega$
	= $\mu\acute{\alpha}\chi\text{-o-}\mu\omega\eta\omega$	= $\dot{\epsilon}\text{-}\mu\alpha\chi\text{-}\acute{\omega}\text{-}\mu\omega\eta\omega$	< $\mu\alpha\chi\text{-}\acute{\epsilon}\text{-}\sigma\text{-o-}\mu\omega\eta\omega$	= $\dot{\epsilon}\text{-}\mu\alpha\chi\text{-}\acute{\epsilon}\text{-}\sigma\acute{\omega}\text{-}\mu\omega\eta\omega$

No és aor temàtic
sinó sigmàtic.

REF e

TF

Arrel:	éρ-		έρ-	έρ-
Temes:	έρ-		έρ-η-σ-	έρ-
<i>preguntar</i>	έρομαι	ήρόμην	έρήσομαι	ήρόμην
	= ἔρ-ο-μαι	< ἔρ-ό-μην	< έρ-ή-σ-ο-μαι	= ἔρ-ό-μην

REF e

TF

Arrel:	οἰχ-		οἰχ-	—
Temes:	οἰχ-		οἰχ-η-	—
<i>marxar</i>	οῖχομαι	φχόμην	οἰχήσομαι	—
	= οἰχ-ο-μαι	< οἰχ-ό-μην	= οἰχ-ή-σ-ο-μαι	—

Aor inusitat

REF e TF	Arrel:	βουλ-		βουλ-	βουλ-
	Temes:	βουλ-		βουλ-η-	βουλ-η-
	voler	βούλομαι	ἐβουλόμην	βουλήσομαι	ἐβουληθῆν
		= βούλ-ο-μαι	= ἐ-βουλ-ό-μην	= βουλ-ή-σ-ο-μαι	= ἐ-βουλ-η-θη-ν
					Aor passiu amb significat actiu
REF e TF	Arrel:	οἱ-		οἱ-	οἱ-
	Temes:	οἱ-		οἱ-η-	οἱ-η-
	creure	οῖομαι / οῖμαι	φόμην / φόμην	οίήσομαι	φήθην
		= οῖ-ο-μαι / οῖ-μαι	< οἱ-ό-μην / οῖ-μην	= οἱ-ή-σ-ο-μαι	< οἱ-ή-θη-ν
					Aor passiu amb significat actiu

*REF ne
TP*

Arrel:	íκ-		íκ-	íκ-
Temes:	ἀφ-ικ-νε-		ἀφ-ικ-σ-	ἀφ-ικ-
<i>arribar</i>	ἀφικνοῦμαι	ἀφικνούμην	ἀφίξομαι	ἀφικόμην
	< ἀφ-ικ-νέ-ο-μαι	< ἀφ-ικ-νε-ό-μην	< ἀφ-ίκ-σ-ο-μαι	= ἀφ-ικ-ό-μην

*REF an
TP*

Arrel:	άμαρτ-		άμαρτ-	άμαρτ-
Temes:	άμαρτ-αν-		άμαρτ-η-σ-	άμαρτ-
<i>errar, fallar</i>	άμαρτάνω	ήμάρτανον	άμαρτήσομαι	ήμαρτον
	= áμαρτ-άν-ω	< ἀμάρτ-αν-ο-ν	= áμάρτ-ή-σ-ο-μαι	< ἀμαρτ-ο-ν

*REF an
TP*

Arrel:	αἰσθ-		αἰσθ-	αἰσθ-
Temes:	αἰσθ-αν-		αἰσθ-η-σ-	αἰσθ-
<i>sentir, percebre</i>	αἰσθάνομαι	ἡσθανόμην	αἰσθήσομαι	ἡσθόμην
	= αἰσθ-άν-o-μαι	< αἰσθ-αν-ό-μην	= αἰσθ-ή-σ-o-μαι	< αἰσθ-ό-μην

*REF n an
TP*

Arrel:	λαθ-		ληθ- < λᾶθ-	λαθ-
Temes:	λα-ν-θ-αν-		ληθ-σ- < λᾶθ-σ-	λαθ-
<i>passar inadvertit</i>	λαμθάνω	ἐλάνθανον	λήσω	ἔλαθον
	= λα-ν-θ-άν-ω	= ἐ-λά-ν-θ-αν-o-ν	< λήθ-σ-ω	= ἔ-λαθ-o-ν

REF n an
TP

Arrel:	μαθ-	μαθ-	μαθ-
Temes:	μα-ν-θ-αν-	μαθ-η-σ-	μαθ-
<i>aprender</i>	μανθάνω	ἐμάνθανον	μαθήσομαι
	= μα-ν-θ-άν-ω	= ἐ-μά-ν-θ-αν-ο-ν	= μαθ-ή-σ-ο-μαι
			= ἔ-μαθον
			= μαθ-ο-ν

REF n an
TP

Arrels:	πυθ-	πευθ-	πυθ-
Temes:	πυ-ν-θ-αν-	πευθ-σ-	πυθ-
<i>esbrinar</i>	πυνθάνομαι	ἐπυνθανόμην	πεύσομαι
	= πυ-ν-θ-άν-ομαι	= ἐ-πυ-ν-θ-αν-ό-μη	< πεύθ-σ-ο-μαι
			= ἔ-πυθ-ό-μην

REF n an
TP

Arrel:	λαβ-		ληβ- < λᾶβ-	λαβ-
Temes:	λα-μ-β-αν- ← λα-γ-β-άν-		ληβ-σ- < λᾶβ--σ-	λαβ-
<i>prendre</i>	λαμβάνω	ἐλάμβανον	λήψομαι	ἔλαβον
	← λα-γ-β-άν-ω	← ἐ-λά-γ-β-αν-ο-ν	< λήβ-σ-ο-μαι	= ἔ-λαβ-ο-ν

REF n an
TP

Arrel:	λαχ-		ληχ- < λᾶχ-	λαχ-
Temes::	λα-γ-χ-αν- ← λα-γ-χ-άν-		ληχ-σ- < λᾶχ-σ-	λαχ-
<i>obtenir</i>	λαγχάνω	ἐλάγχανον	λήξομαι	ἔλαχον
	← λα-γ-χ-άν-ω	← ἐ-λά-γ-χ-αν-ο-ν	< λήχ-σ-ο-μαι	= ἔ-λαχ-ο-ν

*REF n an
TP*

Arrels:	$\tau\upsilon\chi^-$		$\tau\epsilon\upsilon\chi^-$	$\tau\upsilon\chi^-$
Temes:	$\tau\upsilon\gamma\chi\alpha\upsilon-$ ← $\tau\upsilon\underline{\gamma}\chi\acute{\alpha}\upsilon-$		$\tau\epsilon\upsilon\chi\sigma-$	$\tau\upsilon\chi-$
<i>encertar, aconseguir</i>	$\tau\upsilon\gamma\chi\acute{\alpha}\upsilon\omega$	$\dot{\epsilon}\tau\acute{u}\gamma\chi\alpha\upsilon\omega$	$\tau\epsilon\acute{u}\xi\omega\mu\alpha\iota$	$\dot{\epsilon}\tau\upsilon\chi\omega$
	← $\tau\upsilon\underline{\gamma}\chi\acute{\alpha}\upsilon\omega$	← $\dot{\epsilon}\tau\acute{u}\underline{\gamma}\chi\alpha\upsilon\omega$	< $\tau\epsilon\chi\sigma\omega\mu\alpha\iota$	= $\dot{\epsilon}\tau\upsilon\chi\omega$